



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-04.09.2022

थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मु.अ.स. 414/भादवि 392 धारा 2022 का सफल अनावरण,  
टैम्पो चालक बनकर लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1- गोरख नट 2-  
संतोष कुमार 3- मो. निहाल उर्फ पिन्टू गिरफ्तार,  
घटना में प्रयुक्त टैम्पो के साथ कुल 4250 रु. नगद व 03 अदद मोबाइल बरामदा

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के लूट व चोरी की घटनाओं के अनावरण तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् एसीपी कैण्ट के पर्यवेक्षण में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मिन्ट हाउस चौराहे पर हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में प्रयुक्त आटो UP65ET5424 के साथ वांछित अभियुक्त 1. गोरख नट पुत्र स्व मेटी निवासी ग्राम कोईराज पुर नट बस्ती हरहुआ थाना बड़ागाँव वाराणसी 2-सन्तोष कुमार पुत्र लाल जी प्रसाद पता पहलूका पूरा फुलवरिया थाना कैण्ट जनपद वाराणसी 3- मो0 निहाल उर्फ पिन्टू पुत्र एजाज अहमद निवासी सी 19/137 लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी को कैण्ट रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म नं0-की 9 तरफपी एन यू क्लब के दीवार के पास से आज दिनांक 04.09.2022 को समय 00.30 बजे घेरघार कर गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से कुल 4250 रु. नकद बरामद हुआ।

**घटना का विवरण-** दिनांक 30.08.2022 को वादी श्री रुद्रकान्त पाण्डेय पुत्र स्व. राम अनुज पाण्डेय निवासी ग्राम नौबतपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली द्वारा कचहरी से मैदागिन जाते समय रास्ते में पहले से टैम्पो में सवार व्यक्तियों द्वारा हाथ मरोड़कर रु.10000/- सहित पर्स छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना कैण्ट में मु.अ.स. 414/भादवि 392 धारा 2022 पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. राजकुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद आटो नं. UP65ET5424 ।
2. कुल 4250/- रुपये नगद व कुल 03 अदद मोबाइल।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. गोरख नट पुत्र स्व मेटी निवासी ग्राम कोईराज पुर नट बस्ती हरहुआ थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष
2. सन्तोष कुमार पुत्र लाल जी प्रसाद पता पहलूका पूरा फुलवरिया थाना कैण्ट जनपद वाराणसी उम्र करीब 34 वर्ष।
3. मो0 निहाल उर्फ पिन्टू पुत्र एजाज अहमद निवासी सी 19/137 लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी नदेसर थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 प्रवीण कुमार सचान थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
3. प्रशि0 उ0नि0 हिमांशु त्रिपाठी थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
4. उ.नि. दुर्गेश कुमार प्रभारी कमाण्ड सेन्टर, वाराणसी।
5. हे0का0 बनवीर सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
6. हे0का0 विजय शंकर यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
7. हे0का0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
8. का0 प्रेमशंकर पटेल थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी
- 9.का0 सचिन मिश्रा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन,  
कमिश्नरेट वाराणसी